



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 79]	नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 6, 2019/माघ 17, 1940
No. 79]	NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 6, 2019/MAGHA 17, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 2019

**सा.का.नि. 94(अ).—** राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद और सीमाशुल्क बोर्ड, वरिष्ठ अनुवादक और कनिष्ठ अनुवादक (समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय पद) भर्ती नियम 2015 को उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग में वरिष्ठ अनुवादक और कनिष्ठ अनुवादक पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, वरिष्ठ अनुवादक एवं कनिष्ठ अनुवादक, समूह 'ख' पद, भर्ती नियम, 2019 है।  
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. लागू होना :** ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
- 3. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर :** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएँ आदि -** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएँ और उससे संबन्धित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

**5. निरर्हता –** वह व्यक्ति –

(क) जिसने, ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

**6. शिथिल करने की शक्ति** – जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या फायदेमंद है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

**7. व्यावृत्ति** – इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

### अनुसूची

पद का नाम ।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर ।	चयन या अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
वरिष्ठ अनुवादक	79* (2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 7	चयन	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिबीक्षा की अवधि यदि कोई हो।	भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

**प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।**

**(11)**

**प्रोन्नति :** ऐसे कनिष्ठ अनुवादक जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 6 में पाँच वर्ष तक की नियमित सेवा की हो और राष्ट्रीय सीमाशुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नार्कोटिक्स अकादमी में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त किया हो।

**टिप्पण :** जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गयी ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा कि अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

**प्रतिनियुक्ति :** केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारी:-

- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुये हैं; या  
(ii) जिन्होंने मूल काडर विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 6 या समतुल्य पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पाँच वर्षों की नियमित सेवा की है; और

(ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव है:

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो; या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर हिन्दी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो; या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में हिन्दी माध्यम से मास्टर डिग्री और डिग्री स्तर पर अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो; या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में अंग्रेजी माध्यम से मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर हिन्दी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो; या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर हिन्दी और अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या दोनों में से एक परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो और दूसरा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो; और

हिन्दी से अंग्रेजी तथा अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद कार्य का मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम या केंद्रीय या राज्य सरकार के किसी कार्यालय में, जिसमें भारत सरकार के उपक्रम भी शामिल हैं, अंग्रेजी से हिन्दी में और हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद कार्य का तीन वर्ष का अनुभव हो।

**टिप्पण 1 :** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

**टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति (आई एस टी सी) की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (आई एस टी सी) की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

**टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति (आई एस टी सी) द्वारा नियुक्ति के लिए आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति, प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए, जिसमें निम्नलिखित होंगे:-  (i) प्रधान/अपर महानिदेशक, निष्पादन प्रबंधन महानिदेशालय – अध्यक्ष (ii) अपर/संयुक्त निदेशक, मानव संसाधन विकास महानिदेशालय – सदस्य (iii) उप महानिदेशक, निष्पादन प्रबंधन महानिदेशालय – सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
कनिष्ठ अनुवादक।	158* (2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ख', अराजपत्रित, अतनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -6।	लागू नहीं होता।	30 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)  <b>टिप्पण :</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी। (न कि	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो; या  किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर हिन्दी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो; या  किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में हिन्दी माध्यम से मास्टर डिग्री और डिग्री स्तर पर अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो; या  किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में अंग्रेजी माध्यम से मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर हिन्दी अनिवार्य या वैकल्पिक

				<p>वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चंबा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी है।)</p>	<p>विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो; या</p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या दोनों में से एक परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो और दूसरा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो; और</p> <p>हिन्दी से अंग्रेजी तथा अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद कार्य का मान्यताप्राप्त डिप्लोमा या प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम या केंद्रीय या राज्य सरकार के किसी कार्यालय में, जिसमें भारत सरकार के उपक्रम भी शामिल हैं, अंग्रेजी से हिन्दी में और हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद कार्य का तीन वर्ष का अनुभव हो।</p> <p><b>टिप्पण 1 :</b> जो अभ्यर्थी अन्यथा सुयोग्य हैं, उनके लिए अर्हताएँ, कर्मचारी चयन आयोग के विवेक से, लिखित रूप में कारण बताते हुये, शिथिल की जा सकती हैं।</p> <p><b>टिप्पण 2 :</b> अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंध रखने वाले अभ्यर्थियों के मामले में, लिखित में कारण बताते हुए, अनुभव से संबन्धित अर्हता (अर्हताएँ) कर्मचारी चयन आयोग के विवेक से शिथिल की जा सकती हैं यदि चयन के किसी भी चरण में कर्मचारी चयन आयोग यह राय रखता हो कि इन समुदायों में अपेक्षित अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या की संभावना नहीं है, जो उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने हेतु उपलब्ध हों।</p>
--	--	--	--	--	---

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	सीधी भर्ती द्वारा।  <b>टिप्पण :</b> यदि कोई पद, पदधारी की प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन अवकाश या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के कारण एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि हेतु, रिक्त पड़ा हो, उसे केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति आधार पर भरा जा सकता है जिसने :-  (क) (i) समान पद नियमित आधार पर धारण किया हो; या (ii) वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 5 में छः वर्ष तक नियमित सेवा की हो; और (ख) स्तम्भ (7) के अंतर्गत सीधी भर्तियों हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव रखता हो।  <b>टिप्पण 2:</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	लागू नहीं होता।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाए गा।
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति, प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए, जिसमें निम्नलिखित होंगे:- प्रधान/अपर महानिदेशक, निष्पादन प्रबंधन महानिदेशालय – अध्यक्ष अपर/संयुक्त निदेशक, मानव संसाधन विकास महानिदेशालय – सदस्य उप महानिदेशक, निष्पादन प्रबंधन महानिदेशालय – सदस्य	लागू नहीं होता।

[फ. सं. ए-12018/18/2012-एड. III बी]

आर. के. झा, उप सचिव

**MINISTRY OF FINANCE****(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th February, 2019

**G.S.R. 94(E).**— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in the supersession of the Department of Revenue, Central Board of Excise and Customs, Senior Translator and Junior Translator (Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial Posts) Recruitment Rules, 2015 except as respect things done or omitted to be done before the supersession of the said rules, the President makes the rules for regulating the method of

recruitment to the post of Senior Translator and Junior Translator in the Central Board of Indirect Taxes and Customs, Ministry of Finance, Department of Revenue, namely:-

**1. Short title and commencement** — (1) These rules may be called the Central Board of Indirect Taxes and Customs, Senior Translator and Junior Translator, Group 'B' Posts, Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Application-** These rules shall apply to the post specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

**3. Number of posts, classification, level in pay matrix.** — The number of the said posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

**4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

**5. Disqualification.** — No person, —

(a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**6. Power to relax.** — Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**7. Saving.** — Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in the Pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Senior Translator.	79*(2019) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group B, non-Gazetted, non-Ministerial.	Level-7 in the Pay Matrix.	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

  

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or deputation/absorption and percentage of posts to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption is to be made.
(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Not applicable.	Promotion, failing which by deputation.	<b>Promotion:</b> Junior Translators in Level – 6 in the pay matrix with five years regular service in the grade and successfully completed the training of two weeks in the National Academy of Customs, Indirect Taxes and Narcotics.

			<p><b>Note:</b> Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying/ eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/ eligibility service.</p> <p><b>Deputation:</b> Officers under the Central or State Governments or Union Territories: - (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; or (ii) with five years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level – 6 in the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre/department; and (b) Possessing the following educational qualification and experience: Master's degree from a recognised University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level,  Or Master's degree from a recognised University in English with Hindi as a Compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level,  Or Master Degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi Medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of Examination at the degree level.  Or Master's degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level;  Or Master Degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English with Hindi and English as Compulsory or elective subject or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at the degree level; AND  Recognised diploma or certificate course in translation from Hindi to English and vice versa or three years' experience of translation work from Hindi to English and vice versa in a Central or State Government office, including Government of India Undertakings.</p> <p><b>Note 1:</b> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for</p>
--	--	--	---



			<p>appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> Period of deputation (ISTC) including period of deputation (ISTC) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization/ Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.</p> <p><b>Note 3:</b> The maximum age-limit for appointment by deputation (ISTC) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p>
--	--	--	---

If a Departmental Promotion Committee exist, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
<p><b>Group 'B' Departmental Promotion Committee, for promotion, consisting of :-</b></p> <p>(i) Principal /Additional Director General of Directorate General of Performance Management – Chairman</p> <p>(ii) Additional/ Joint Director of Directorate General of Human Resource Development – Member</p> <p>(iii) Deputy Director General of Directorate General of Performance Management – Member</p>	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Junior Translator.	158*(2019) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group B, non-Gazetted, non-Ministerial.	Level – 6 in the Pay Matrix.	Not applicable.	<p>Not exceeding 30 years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).</p> <p><b>Note:</b> The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram,</p>	<p>Master's degree from a recognised University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level</p> <p>OR</p> <p>Master's degree from a recognised University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level</p> <p>OR</p> <p>Master's degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level;</p> <p>OR</p> <p>Master's degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with English medium</p>

					<p>Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p>	<p>and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level;</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>Master's Degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subject or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at the degree level; AND</p> <p>Recognised Diploma or Certificate course in translation from Hindi to English and vice versa or two years' experience of translation work from Hindi to English and vice versa in a Central or State Government office, including Government of India Undertakings.</p> <p><b>Note 1:</b> Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p><b>Note 2:</b> The qualification (s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Staff Selection Commission, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>
(8)	(9)	(10)			(11)	
Not applicable.	Two Years.	<p>Direct Recruitment.</p> <p><b>Note:</b> Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government.</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with six years regular service in posts in level – 5 in the pay matrix, and</p> <p>(b) Possessing educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).</p>			Not applicable.	

		<b>Note 2:</b> The maximum age-limit for appointment by Deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.	
--	--	---	--

(12)	(13)
<b>Group 'B' Departmental Confirmation Committee, for confirmation, consisting of :-</b> (i) Principal /Additional Director General of Directorate General of Performance Management – Chairman (ii) Additional/ Joint Director of Directorate General of Human Resource Development – Member (iii) Deputy Director General of Directorate General of Performance Management – Member	Not applicable.

[F.No.A-12018/18/2012-Ad.III.B]

R.K. JHA, Dy. Secy.